

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 641]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 10, 2009/कार्तिक 19, 1931

No. 641]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 10, 2009/KARTIKA 19, 1931

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2009

सं. 123/2009-सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 805(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 2 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना जनहित में अनिवार्य है, एतद्वारा निदेश देती है कि नीचे की सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की प्रत्येक अधिसूचना को उक्त सारणी के कॉलम (3) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट तरीके से पुनः संशोधित करने हेतु, जैसा मामला हो, संशोधित किया जाएगा, अर्थात् :

सारणी

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या एवं तिथि	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	53/2003-सीमा-शुल्क, दिनांक 1 अप्रैल, 2003 [सा.का.नि. 277 (अ), दिनांक 1 अप्रैल, 2003 के जरिए]	उक्त अधिसूचना में शर्त (5) में "वालुज (औरंगाबाद)" शब्दों और कोष्ठकों की जगह "वालुज (औरंगाबाद), तलेगांव (जिला-पुणा), धननड राऊ (जिला-इंदौर), खेड़ा (पिथमपुर, जिला-धार) और पाटली (गुडगांव)" शब्द, कोष्ठक एवं चिन्ह प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
2.	54/2003-सीमा-शुल्क, दिनांक 1 अप्रैल, 2003 [सा.का.नि. 278 (अ), दिनांक 1 अप्रैल, 2003 के जरिए]	उक्त अधिसूचना में शर्त (4) में "वालुज (औरंगाबाद)" शब्दों और कोष्ठकों की जगह "वालुज (औरंगाबाद), तलेगांव (जिला-पुणा), धननड राऊ (जिला-इंदौर), खेड़ा (पिथमपुर, जिला-धार) और पाटली (गुडगांव)" शब्द, कोष्ठक एवं चिन्ह प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

		प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
3	90/2004-सीमा शुल्क, दिनांक 10 सितम्बर, 2004 [सा.का. नि.603 (अ), दिनांक 10 सितम्बर, 2004 के जरिए]	उक्त अधिसूचना में शर्त (iv) में "वालुज (औरंगाबाद)" शब्दों और कोष्ठकों की जगह "वालुज (औरंगाबाद), तलेगांव (जिला-पुणा), धननड राऊ (जिला-इंदौर), खेड़ा (पिथमपुर, जिला-धार) और पाटली (गुड़गांव)" शब्द, कोष्ठक एवं चिन्ह प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
4	91/2004-सीमा शुल्क, दिनांक 10 सितम्बर, 2004 [सा.का. नि.604(अ), दिनांक 10 सितम्बर, 2004 के जरिए]	उक्त अधिसूचना में प्रारम्भिक पैरा में शर्त (vi) में "वालुज (औरंगाबाद)" शब्दों और कोष्ठकों की जगह "वालुज (औरंगाबाद), तलेगांव (जिला-पुणा), धननड राऊ (जिला-इंदौर), खेड़ा (पिथमपुर, जिला-धार) और पाटली (गुड़गांव)" शब्द, कोष्ठक एवं चिन्ह प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
5	92/2004-सीमा शुल्क, दिनांक 10 सितम्बर, 2004 [सा.का.नि. 605(अ), दिनांक 10 सितम्बर, 2004 के जरिए]	उक्त अधिसूचना में प्रारम्भिक पैरा में शर्त (iv) में "वालुज (औरंगाबाद)" शब्दों और कोष्ठकों की जगह "वालुज (औरंगाबाद), तलेगांव (जिला-पुणा), धननड राऊ (जिला-इंदौर), खेड़ा (पिथमपुर, जिला-धार) और पाटली (गुड़गांव)" शब्द, कोष्ठक एवं चिन्ह प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
6	93/2004-सीमा शुल्क, दिनांक 10 सितम्बर, 2004 [सा.का.नि. 606 (अ), दिनांक 10 सितम्बर, 2004 के जरिए]	उक्त अधिसूचना में प्रारम्भिक पैरा में शर्त (iv) में "वालुज (औरंगाबाद)" शब्दों और कोष्ठकों की जगह "वालुज (औरंगाबाद), तलेगांव (जिला-पुणा), धननड राऊ (जिला-इंदौर), खेड़ा (पिथमपुर, जिला-धार) और पाटली (गुड़गांव)" शब्द, कोष्ठक एवं चिन्ह प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
7	94/2004-सीमा शुल्क, दिनांक 10 सितम्बर, 2004 [सा.का.नि. 607 (अ), दिनांक 10 सितम्बर, 2004 के जरिए]	उक्त अधिसूचना में शर्त (6) में "वालुज (औरंगाबाद)" शब्दों और कोष्ठकों की जगह "वालुज (औरंगाबाद), तलेगांव (जिला-पुणा), धननड राऊ (जिला-इंदौर), खेड़ा (पिथमपुर, जिला-धार) और पाटली (गुड़गांव)" शब्द, कोष्ठक एवं चिन्ह प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
8	97/2004-सीमा शुल्क, दिनांक 17 सितम्बर, 2004 [सा.का.नि. 620(अ), दिनांक 17 सितम्बर,	उक्त अधिसूचना में प्रारम्भिक पैरा में शर्त (6) में "वालुज (औरंगाबाद)" शब्दों और कोष्ठकों की जगह "वालुज (औरंगाबाद), तलेगांव (जिला-पुणा), धननड

	2004 के जरिए]	राऊ (जिला-इंदौर), खेड़ा (पिथमपुर, जिला-धार) और पाटली (गुड़गांव)" शब्द, कोष्ठक एवं चिन्ह प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
9	32/2005-सीमा शुल्क, दिनांक 8 अप्रैल, 2005 [सा.का.नि. 222 (अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2005 के जरिए]	उक्त अधिसूचना में प्रारम्भिक पैरा में शर्त (5) में "वालुज (औरंगाबाद)" शब्दों और कोष्ठकों की जगह "वालुज (औरंगाबाद), तलेगांव (जिला-पुणा), धननड राऊ (जिला-इंदौर), खेड़ा (पिथमपुर, जिला-धार) और पाटली (गुड़गांव)" शब्द, कोष्ठक एवं चिन्ह प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
10	41/2005-सीमा शुल्क, दिनांक 9 मई, 2005 [सा.का.नि. 282 (अ), दिनांक 9 मई, 2005 के जरिए]	उक्त अधिसूचना में प्रारम्भिक पैरा में शर्त (3) में "वालुज (औरंगाबाद)" शब्दों और कोष्ठकों की जगह "वालुज (औरंगाबाद), तलेगांव (जिला-पुणा), धननड राऊ (जिला-इंदौर), खेड़ा (पिथमपुर, जिला-धार) और पाटली (गुड़गांव)" शब्द, कोष्ठक एवं चिन्ह प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
11	89/2005-सीमा शुल्क, दिनांक 4 अक्टूबर, 2005 [सा.का.नि. 624(अ), दिनांक 4 अक्टूबर, 2005 के जरिए]	उक्त अधिसूचना में प्रारम्भिक पैरा में शर्त (iv) में "वालुज (औरंगाबाद)" शब्दों और कोष्ठकों की जगह "वालुज (औरंगाबाद), तलेगांव (जिला-पुणा), धननड राऊ (जिला-इंदौर), खेड़ा (पिथमपुर, जिला-धार) और पाटली (गुड़गांव)" शब्द, कोष्ठक एवं चिन्ह प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
12	40/2006-सीमा शुल्क, दिनांक 1 मई, 2006 [सा.का.नि. 260 (अ), दिनांक 1 मई, 2006 के जरिए]	उक्त अधिसूचना में प्रारम्भिक पैरा में शर्त (iv) में "वालुज (औरंगाबाद)" शब्दों और कोष्ठकों की जगह "वालुज (औरंगाबाद), तलेगांव (जिला-पुणा), धननड राऊ (जिला-इंदौर), खेड़ा (पिथमपुर, जिला-धार) और पाटली (गुड़गांव)" शब्द, कोष्ठक एवं चिन्ह प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
13	73/2006-सीमा शुल्क, दिनांक 10 जुलाई, 2006 [सा.का.नि. 408(अ), दिनांक 10 जुलाई, 2006 के जरिए]	उक्त अधिसूचना में प्रारम्भिक पैरा में शर्त (5) में "वालुज (औरंगाबाद)" शब्दों और कोष्ठकों की जगह "वालुज (औरंगाबाद), तलेगांव (जिला-पुणा), धननड राऊ (जिला-इंदौर), खेड़ा (पिथमपुर, जिला-धार) और पाटली (गुड़गांव)" शब्द, कोष्ठक एवं चिन्ह प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
14	90/2006-सीमा शुल्क, दिनांक	उक्त अधिसूचना में प्रारम्भिक पैरा में शर्त (4) में

	1 सितम्बर, 2006 [सा.का.नि. 528(अ), दिनांक 1 सितम्बर, 2006 के जरिए]	"वालुज (औरंगाबाद)" शब्दों और कोष्ठकों की जगह "वालुज (औरंगाबाद), तलेगांव (जिला-पुणा), धननड राऊ (जिला-इंदौर), खेड़ा (पिथमपुर, जिला-धार) और पाटली (गुडगांव)" शब्द, कोष्ठक एवं चिन्ह प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
15	91/2006-सीमा शुल्क, दिनांक 1 सितम्बर, 2006 [सा.का.नि. 529(अ), दिनांक 1 सितम्बर, 2006 के जरिए]	उक्त अधिसूचना में प्रारम्भिक पैरा में शर्त (4) में "वालुज (औरंगाबाद)" शब्दों और कोष्ठकों की जगह "वालुज (औरंगाबाद), तलेगांव (जिला-पुणा), धननड राऊ (जिला-इंदौर), खेड़ा (पिथमपुर, जिला-धार) और पाटली (गुडगांव)" शब्द, कोष्ठक एवं चिन्ह प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
16	14/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 19 फरवरी, 2009 [सा.का.नि. 103(अ), दिनांक 19 फरवरी, 2009 के जरिए]	उक्त अधिसूचना में प्रारम्भिक पैरा में शर्त (4) में "वालुज (औरंगाबाद)" शब्दों और कोष्ठकों की जगह "वालुज (औरंगाबाद), तलेगांव (जिला-पुणा), धननड राऊ (जिला-इंदौर), खेड़ा (पिथमपुर, जिला-धार) और पाटली (गुडगांव)" शब्द, कोष्ठक एवं चिन्ह प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
17	91/2006-सीमा शुल्क, दिनांक 11 सितम्बर, 2009 [सा.का.नि. 657(अ), दिनांक 11 सितम्बर, 2009 के जरिए]	उक्त अधिसूचना में प्रारम्भिक पैरा में शर्त (iv) में "वालुज (औरंगाबाद)" शब्दों और कोष्ठकों की जगह "वालुज (औरंगाबाद), तलेगांव (जिला-पुणा), धननड राऊ (जिला-इंदौर), खेड़ा (पिथमपुर, जिला-धार) और पाटली (गुडगांव)" शब्द, कोष्ठक एवं चिन्ह प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
18	92/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 11 सितम्बर, 2009 [सा.का.नि. 658(अ), दिनांक 11 सितम्बर, 2009 के जरिए]	उक्त अधिसूचना में प्रारम्भिक पैरा में शर्त (iv) में "वालुज (औरंगाबाद)" शब्दों और कोष्ठकों की जगह "वालुज (औरंगाबाद), तलेगांव (जिला-पुणा), धननड राऊ (जिला-इंदौर), खेड़ा (पिथमपुर, जिला-धार) और पाटली (गुडगांव)" शब्द, कोष्ठक एवं चिन्ह प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
19	93/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 11 सितम्बर, 2009 [सा.का.नि. 659(अ), दिनांक 11 सितम्बर, 2009 के जरिए]	उक्त अधिसूचना में प्रारम्भिक पैरा में शर्त (iv) में "वालुज (औरंगाबाद)" शब्दों और कोष्ठकों की जगह "वालुज (औरंगाबाद), तलेगांव (जिला-पुणा), धननड राऊ (जिला-इंदौर), खेड़ा (पिथमपुर, जिला-धार) और पाटली (गुडगांव)" शब्द, कोष्ठक एवं चिन्ह

		प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
20	94/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 11 सितम्बर, 2009 [सा.का.नि. 660(अ), दिनांक 11 सितम्बर, 2009 के जरिए]	उक्त अधिसूचना में प्रारम्भिक पैरा में शर्त (iv) में "वालुज (औरंगाबाद)" शब्दों और कोष्ठकों की जगह "वालुज (औरंगाबाद), तलेगांव (जिला-पुणा), धननड राऊ (जिला-इंदौर), खेड़ा (पिथमपुर, जिला-धार) और पाटली (गुड़गांव)" शब्द, कोष्ठक एवं चिन्ह प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
21	95/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 11 सितम्बर, 2009 [सा.का.नि. 661(अ), दिनांक 11 सितम्बर, 2009 के जरिए]	उक्त अधिसूचना में प्रारम्भिक पैरा में शर्त (iv) में "वालुज (औरंगाबाद)" शब्दों और कोष्ठकों की जगह "वालुज (औरंगाबाद), तलेगांव (जिला-पुणा), धननड राऊ (जिला-इंदौर), खेड़ा (पिथमपुर, जिला-धार) और पाटली (गुड़गांव)" शब्द, कोष्ठक एवं चिन्ह प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
22	96/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 11 सितम्बर, 2009 [सा.का.नि. 662(अ), दिनांक 11 सितम्बर, 2009 के जरिए]	उक्त अधिसूचना में प्रारम्भिक पैरा में शर्त (vii) में "वालुज (औरंगाबाद)" शब्दों और कोष्ठकों की जगह "वालुज (औरंगाबाद), तलेगांव (जिला-पुणा), धननड राऊ (जिला-इंदौर), खेड़ा (पिथमपुर, जिला-धार) और पाटली (गुड़गांव)" शब्द, कोष्ठक एवं चिन्ह प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
23	97/2006-सीमा शुल्क, दिनांक 11 सितम्बर, 2009 [सा.का.नि. 663(अ), दिनांक 11 सितम्बर, 2009 के जरिए]	उक्त अधिसूचना में प्रारम्भिक पैरा में शर्त (iv) में "वालुज (औरंगाबाद)" शब्दों और कोष्ठकों की जगह "वालुज (औरंगाबाद), तलेगांव (जिला-पुणा), धननड राऊ (जिला-इंदौर), खेड़ा (पिथमपुर, जिला-धार) और पाटली (गुड़गांव)" शब्द, कोष्ठक एवं चिन्ह प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
24	98/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 11 सितम्बर, 2009 [सा.का.नि. 664(अ), दिनांक 11 सितम्बर, 2009 के जरिए]	उक्त अधिसूचना में प्रारम्भिक पैरा में शर्त (vi) में "वालुज (औरंगाबाद)" शब्दों और कोष्ठकों की जगह "वालुज (औरंगाबाद), तलेगांव (जिला-पुणा), धननड राऊ (जिला-इंदौर), खेड़ा (पिथमपुर, जिला-धार) और पाटली (गुड़गांव)" शब्द, कोष्ठक एवं चिन्ह प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
25	99/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 11 सितम्बर, 2009 [सा.का.नि. 665(अ), दिनांक 11 सितम्बर,	उक्त अधिसूचना में प्रारम्भिक पैरा में शर्त (vii) में "वालुज (औरंगाबाद)" शब्दों और कोष्ठकों की जगह "वालुज (औरंगाबाद), तलेगांव (जिला-पुणा), धननड

	2009 के जरिए]	राऊ (जिला-इंदौर), खेड़ा (पिथमपुर, जिला-धार) और पाटली (गुड़गांव)" शब्द, कोष्ठक एवं चिन्ह प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
26	100/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 11 सितम्बर, 2009 [सा.का.नि. 666(अ), दिनांक 11 सितम्बर, 2009 के जरिए]	उक्त अधिसूचना में प्रारम्भिक पैरा में शर्त (9) में "वालुज (औरंगाबाद)" शब्दों और कोष्ठकों की जगह "वालुज (औरंगाबाद), तलेगांव (जिला-पुणा), धननड राऊ (जिला-इंदौर), खेड़ा (पिथमपुर, जिला-धार) और पाटली (गुड़गांव)" शब्द, कोष्ठक एवं चिन्ह प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
27	101/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 11 सितम्बर, 2009 [सा.का.नि. 667(अ), दिनांक 11 सितम्बर, 2009 के जरिए]	उक्त अधिसूचना में प्रारम्भिक पैरा में शर्त (12) में "वालुज (औरंगाबाद)" शब्दों और कोष्ठकों की जगह "वालुज (औरंगाबाद), तलेगांव (जिला-पुणा), धननड राऊ (जिला-इंदौर), खेड़ा (पिथमपुर, जिला-धार) और पाटली (गुड़गांव)" शब्द, कोष्ठक एवं चिन्ह प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
28	102/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 11 सितम्बर, 2009 [सा.का.नि. 668(अ), दिनांक 11 सितम्बर, 2009 के जरिए]	उक्त अधिसूचना में प्रारम्भिक पैरा में शर्त (11) में "वालुज (औरंगाबाद)" शब्दों और कोष्ठकों की जगह "वालुज (औरंगाबाद), तलेगांव (जिला-पुणा), धननड राऊ (जिला-इंदौर), खेड़ा (पिथमपुर, जिला-धार) और पाटली (गुड़गांव)" शब्द, कोष्ठक एवं चिन्ह प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
29	103/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 11 सितम्बर, 2009 [सा.का.नि. 669(अ), दिनांक 11 सितम्बर, 2009 के जरिए]	उक्त अधिसूचना में प्रारम्भिक पैरा में शर्त (8) में "वालुज (औरंगाबाद)" शब्दों और कोष्ठकों की जगह "वालुज (औरंगाबाद), तलेगांव (जिला-पुणा), धननड राऊ (जिला-इंदौर), खेड़ा (पिथमपुर, जिला-धार) और पाटली (गुड़गांव)" शब्द, कोष्ठक एवं चिन्ह प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
30	104/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 14 सितम्बर, 2009 [सा.का.नि. 674(अ), दिनांक 14 सितम्बर, 2009 के जरिए]	उक्त अधिसूचना में प्रारम्भिक पैरा में शर्त (v) में "वालुज (औरंगाबाद)" शब्दों और कोष्ठकों की जगह "वालुज (औरंगाबाद), तलेगांव (जिला-पुणा), धननड राऊ (जिला-इंदौर), खेड़ा (पिथमपुर, जिला-धार) और पाटली (गुड़गांव)" शब्द, कोष्ठक एवं चिन्ह प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
31	112/2009-सीमा शुल्क, दिनांक	उक्त अधिसूचना में प्रारम्भिक पैरा में शर्त (vii) में

29 सितम्बर, 2009 [सा.का.नि. 710(अ), दिनांक 29 सितम्बर, 2009 के जरिए]	"वालुज (औरंगाबाद)" शब्दों और कोष्ठकों की जगह "वालुज (औरंगाबाद), तलेगांव (जिला-पुणा), धननड राऊ (जिला-इंदौर), खेड़ा (पिथमपुर, जिला-धार) और पाटली (गुडगांव)" शब्द, कोष्ठक एवं चिन्ह प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
--	---

[फा. सं. 605/02/2009-डी बी के]

राजेश कुमार अग्रवाल, अवर सचिव

नोट : (1) मूल अधिसूचना सं.53/2003-सीमा शुल्क, दिनांक 1 अप्रैल, 2003 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 277 (अ) दिनांक 1 अप्रैल, 2003 के जरिए प्रकाशित हुई थी और इसमें अंतिम बार संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 111 (अ), दिनांक 24 फरवरी, 2009 के जरिए प्रकाशित अधिसूचना सं.19/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 24 फरवरी, 2009 के द्वारा किया गया था।

(2) मूल अधिसूचना सं.54/2003-सीमा शुल्क, दिनांक 1 अप्रैल, 2003 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 278 (अ) दिनांक 1 अप्रैल, 2003 के जरिए प्रकाशित हुई थी और इसमें अंतिम बार संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 111 (अ), दिनांक 24 फरवरी, 2009 के जरिए प्रकाशित अधिसूचना सं.19/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 24 फरवरी, 2009 के द्वारा किया गया था।

(3) मूल अधिसूचना सं.90/2004-सीमा शुल्क, दिनांक 10 सितम्बर, 2004 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 603 (अ) दिनांक 10 सितम्बर, 2004 के जरिए प्रकाशित हुई थी और इसमें अंतिम बार संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 111 (अ), दिनांक 24 फरवरी, 2009 के जरिए प्रकाशित अधिसूचना सं.19/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 24 फरवरी, 2009 के द्वारा किया गया था।

(4) मूल अधिसूचना सं.91/2004-सीमा शुल्क, दिनांक 10 सितम्बर, 2004 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 604 (अ) दिनांक 10 सितम्बर, 2004 के जरिए प्रकाशित हुई थी और इसमें अंतिम बार संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 111 (अ), दिनांक 24 फरवरी, 2009 के जरिए प्रकाशित अधिसूचना सं.19/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 24 फरवरी, 2009 के द्वारा किया गया था।

(5) मूल अधिसूचना सं.92/2004-सीमा शुल्क, दिनांक 10 सितम्बर, 2004 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 605 (अ) दिनांक 10 सितम्बर, 2004 के जरिए प्रकाशित हुई थी और इसमें अंतिम बार संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 111 (अ), दिनांक 24 फरवरी, 2009 के जरिए प्रकाशित अधिसूचना सं.19/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 24 फरवरी, 2009 के द्वारा किया गया था ।

(6) मूल अधिसूचना सं.93/2004-सीमा शुल्क, दिनांक 10 सितम्बर, 2004 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 606 (अ) दिनांक 10 सितम्बर, 2004 के जरिए प्रकाशित हुई थी और इसमें अंतिम बार संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 141 (अ), दिनांक 2 मार्च, 2009 के जरिए प्रकाशित अधिसूचना सं.22/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 2 मार्च, 2009 के द्वारा किया गया था ।

(7) मूल अधिसूचना सं.94/2004-सीमा शुल्क, दिनांक 10 सितम्बर, 2004 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 607 (अ) दिनांक 10 सितम्बर, 2004 के जरिए प्रकाशित हुई थी और इसमें अंतिम बार संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 141 (अ), दिनांक 2 मार्च, 2009 के जरिए प्रकाशित अधिसूचना सं.22/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 2 मार्च, 2009 के द्वारा किया गया था ।

(8) मूल अधिसूचना सं.97/2004-सीमा शुल्क, दिनांक 17 सितम्बर, 2004 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 620 (अ) दिनांक 17 सितम्बर, 2004 के जरिए प्रकाशित हुई थी और इसमें अंतिम बार संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 111 (अ), दिनांक 24 फरवरी, 2009 के जरिए प्रकाशित अधिसूचना सं.19/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 24 फरवरी, 2009 के द्वारा किया गया था ।

(9) मूल अधिसूचना सं.32/2005-सीमा शुल्क, दिनांक 8 अप्रैल, 2005 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 222 (अ) दिनांक 8 अप्रैल, 2005 के जरिए प्रकाशित हुई थी और इसमें अंतिम बार संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 111 (अ), दिनांक 24 फरवरी, 2009 के जरिए प्रकाशित अधिसूचना सं.19/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 24 फरवरी, 2009 के द्वारा किया गया था ।

(10) मूल अधिसूचना सं.41/2005-सीमा शुल्क, दिनांक 9 मई, 2005 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 282 (अ) दिनांक 9 मई, 2005 के जरिए प्रकाशित हुई थी और इसमें अंतिम बार संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 111 (अ), दिनांक 24 फरवरी, 2009 के जरिए प्रकाशित अधिसूचना सं.19/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 24 फरवरी, 2009 के द्वारा किया गया था ।

(11) मूल अधिसूचना सं.89/2005-सीमा शुल्क, दिनांक 4 अक्टूबर, 2005 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 624 (अ) दिनांक 4 अक्टूबर, 2005 के जरिए प्रकाशित हुई थी और इसमें अंतिम बार संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 111 (अ), दिनांक 24 फरवरी, 2009 के जरिए प्रकाशित अधिसूचना सं.19/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 24 फरवरी, 2009 के द्वारा किया गया था ।

(12) मूल अधिसूचना सं.40/2006-सीमा शुल्क, दिनांक 1 मई, 2006 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 260 (अ) दिनांक 1 मई, 2006 के जरिए प्रकाशित हुई थी और इसमें अंतिम बार संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 111 (अ), दिनांक 24 फरवरी, 2009 के जरिए प्रकाशित अधिसूचना सं.19/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 24 फरवरी, 2009 के द्वारा किया गया था ।

(13) मूल अधिसूचना सं.73/2006-सीमा शुल्क, दिनांक 10 जुलाई, 2006 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 408 (अ) दिनांक 10 जुलाई, 2006 के जरिए प्रकाशित हुई थी और इसमें अंतिम बार संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 111 (अ), दिनांक 24 फरवरी, 2009 के जरिए प्रकाशित अधिसूचना सं.19/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 24 फरवरी, 2009 के द्वारा किया गया था ।

(14) मूल अधिसूचना सं.90/2006-सीमा शुल्क, दिनांक 1 सितम्बर, 2006 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 528 (अ) दिनांक 1 सितम्बर, 2006 के जरिए प्रकाशित हुई थी और इसमें अंतिम बार संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 111 (अ), दिनांक 24 फरवरी, 2009 के जरिए प्रकाशित अधिसूचना सं.19/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 24 फरवरी, 2009 के द्वारा किया गया था ।

(15) मूल अधिसूचना सं.91/2006-सीमा शुल्क, दिनांक 1 सितम्बर, 2006 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 529 (अ) दिनांक 1 सितम्बर, 2006 के जरिए प्रकाशित हुई थी और इसमें अंतिम बार संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 111 (अ), दिनांक 24 फरवरी, 2009 के जरिए प्रकाशित अधिसूचना सं.19/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 24 फरवरी, 2009 के द्वारा किया गया था।

(16) मूल अधिसूचना सं.14/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 19 फरवरी, 2009 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 103 (अ) दिनांक 19 फरवरी, 2009 के जरिए प्रकाशित हुई थी और इसमें अंतिम बार संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 111 (अ), दिनांक 24 फरवरी, 2009 के जरिए प्रकाशित अधिसूचना सं.19/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 24 फरवरी, 2009 के द्वारा किया गया था।

(17) मूल अधिसूचना सं.91/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 11 सितम्बर, 2009 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 657 (अ), दिनांक 11 सितम्बर, 2009 के जरिए प्रकाशित हुई थी।

(18) मूल अधिसूचना सं.92/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 11 सितम्बर, 2009 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 658 (अ), दिनांक 11 सितम्बर, 2009 के जरिए प्रकाशित हुई थी।

(19) मूल अधिसूचना सं.93/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 11 सितम्बर, 2009 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 659 (अ), दिनांक 11 सितम्बर, 2009 के जरिए प्रकाशित हुई थी।

(20) मूल अधिसूचना सं.94/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 11 सितम्बर, 2009 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 660 (अ), दिनांक 11 सितम्बर, 2009 के जरिए प्रकाशित हुई थी।

(21) मूल अधिसूचना सं.95/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 11 सितम्बर, 2009 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 661 (अ), दिनांक 11 सितम्बर, 2009 के जरिए प्रकाशित हुई थी।

(22) मूल अधिसूचना सं.96/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 11 सितम्बर, 2009 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 662 (अ), दिनांक 11 सितम्बर, 2009 के जरिए प्रकाशित हुई थी।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 2009

No. 123/2009-CUSTOMS

G.S.R. 805(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that each of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column (2) of the Table below, shall be amended or further amended, as the case may be, in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely :-

Table

Sl.No	Notification Number. and Date	Amendment
(1)	(2)	(3)
1.	53/2003-Customs, dated the 1 st April, 2003 [Vide number G.S.R 277(E), dated the 1 st April, 2003]	In the said notification, in condition (5), for the words and brackets "Waluj (Aurangabad)", the words, brackets and punctuations "Waluj (Aurangabad), Talegoan (District Pune), Dhannad Rau (District Indore), Kheda (Pithampur, District Dhar) and Patli (Gurgaon)", shall be substituted;
2.	54/2003-Customs, dated the 1 st April, 2003 [Vide number G.S.R 278(E), dated the 1 st April, 2003]	In the said notification, in condition (4), for the words and brackets "Waluj (Aurangabad)", the words, brackets and punctuations "Waluj (Aurangabad), Talegoan (District Pune), Dhannad Rau (District Indore), Kheda (Pithampur, District Dhar) and Patli (Gurgaon)", shall be substituted;
3.	90/2004-Customs, dated the 10 th September, 2004 [Vide number G.S.R 603(E), dated the 10 th September, 2004.	In the said notification, in condition (iv), for the words and brackets "Waluj (Aurangabad)", the words, brackets and punctuations "Waluj (Aurangabad), Talegoan (District Pune), Dhannad Rau (District Indore), Kheda (Pithampur, District Dhar) and Patli (Gurgaon)", shall be substituted;
4.	91/2004-Customs, dated the 10 th September, 2004 [Vide number G.S.R 604(E), dated the 10 th September, 2004]	In the said notification, in the opening paragraph, in condition (vi), for the words and brackets "Waluj (Aurangabad)", the words, brackets and punctuations "Waluj (Aurangabad), Talegoan (District Pune), Dhannad Rau (District Indore), Kheda (Pithampur, District Dhar) and Patli (Gurgaon)", shall be substituted;

5.	92/2004-Customs, dated the 10 th September, 2004 [Vide number G.S.R 605(E), dated the 10 th September, 2004]	In the said notification, in the opening paragraph, in condition (iv), for the words and brackets "Waluj (Aurangabad)", the words, brackets and punctuations "Waluj (Aurangabad), Talegoan (District Pune), Dhannad Rau (District Indore), Kheda (Pithampur, District Dhar) and Patli (Gurgaon)", shall be substituted;
6.	93/2004-Customs, dated the 10 th September, 2004 [Vide number G.S.R 606(E), dated the 10 th September, 2004]	In the said notification, in the opening paragraph, in condition (iv), for the words and brackets "Waluj (Aurangabad)", the words, brackets and punctuations "Waluj (Aurangabad), Talegoan (District Pune), Dhannad Rau (District Indore), Kheda (Pithampur, District Dhar) and Patli (Gurgaon)", shall be substituted;
7.	94/2004-Customs, dated the 10 th September, 2004 [Vide number G.S.R 607(E), dated the 10 th September, 2004]	In the said notification, in condition (6), for the words and brackets "Waluj (Aurangabad)", the words, brackets and punctuations "Waluj (Aurangabad), Talegoan (District Pune), Dhannad Rau (District Indore), Kheda (Pithampur, District Dhar) and Patli (Gurgaon)", shall be substituted;
8.	97/2004-Customs, dated the 17 th September, 2004 [Vide number G.S.R 620(E), dated the 17 th September, 2004]	In the said notification, in the opening paragraph, in condition (6), for the words and brackets "Waluj (Aurangabad)", the words, brackets and punctuations "Waluj (Aurangabad), Talegoan (District Pune), Dhannad Rau (District Indore), Kheda (Pithampur, District Dhar) and Patli (Gurgaon)", shall be substituted;
9.	32/2005-Customs, dated the 8 th April, 2005 [Vide number G.S.R 222(E), dated the 8 th April, 2005]	In the said notification, in the opening paragraph, in condition (5), for the words and brackets "Waluj (Aurangabad)", the words, brackets and punctuations "Waluj (Aurangabad), Talegoan (District Pune), Dhannad Rau (District Indore), Kheda (Pithampur, District Dhar) and Patli (Gurgaon)", shall be substituted;
10.	41/2005-Customs, dated the 9 th May, 2005 [Vide number G.S.R 282(E), dated the 9 th May, 2005]	In the said notification, in the opening paragraph, in condition (3), for the words and brackets "Waluj (Aurangabad)", the words, brackets and punctuations "Waluj (Aurangabad), Talegoan (District Pune), Dhannad Rau (District Indore), Kheda (Pithampur, District Dhar) and Patli (Gurgaon)", shall be substituted;
11.	89/2005-Customs, dated the 4 th October, 2005 [Vide number G.S.R 624 (E), dated the 4 th October, 2005]	In the said notification, in the opening paragraph, in condition (iv), for the words and brackets "Waluj (Aurangabad)", the words, brackets and punctuations "Waluj (Aurangabad), Talegoan (District Pune), Dhannad Rau (District Indore), Kheda (Pithampur, District Dhar) and Patli (Gurgaon)", shall be substituted;
12.	40/2006-Customs, dated the 1 st May 2006 [Vide number G.S.R 260 (E), dated the 1 st May, 2006]	In the said notification, in the opening paragraph, in condition (iv), for the words and brackets "Waluj (Aurangabad)", the words, brackets and punctuations "Waluj (Aurangabad), Talegoan (District Pune), Dhannad Rau (District Indore), Kheda (Pithampur, District Dhar) and Patli (Gurgaon)", shall be substituted;
13.	73/2006-Customs, dated the 10 th July,	In the said notification, in the opening paragraph, in condition (5), for the words and brackets "Waluj

	2006 [Vide number G.S.R 408(E), dated the 10 th July, 2006]	(Aurangabad)", the words, brackets and punctuations "Waluj (Aurangabad), Talegoan(District Pune), Dhannad Rau (District Indore), Kheda (Pithampur, District Dhar) and Patli (Gurgaon)", shall be substituted;
14.	90/2006-Customs, dated the 1 st September, 2006 [Vide number G.S.R 528(E), dated the 1 st September, 2006]	In the said notification, in the opening paragraph, in condition (4), for the words and brackets "Waluj (Aurangabad)", the words, brackets and punctuations "Waluj (Aurangabad), Talegoan(District Pune), Dhannad Rau (District Indore), Kheda (Pithampur, District Dhar) and Patli (Gurgaon)", shall be substituted;
15.	91/2006-Customs, dated the 1 st September, 2006 [Vide number G.S.R 529(E), dated the 1 st September, 2006]	In the said notification, in the opening paragraph, in condition (4), for the words and brackets "Waluj (Aurangabad)", the words, brackets and punctuations "Waluj (Aurangabad), Talegoan(District Pune), Dhannad Rau (District Indore), Kheda (Pithampur, District Dhar) and Patli (Gurgaon)", shall be substituted;
16	14/2009-Customs, dated the 19 th February, 2009[Vide number G.S.R 103(E), dated the 19 th February, 2009]	In the said notification, in the opening paragraph, in condition (4), for the words and brackets "Waluj (Aurangabad)", the words, brackets and punctuations "Waluj (Aurangabad), Talegoan(District Pune), Dhannad Rau (District Indore), Kheda (Pithampur, District Dhar) and Patli (Gurgaon)", shall be substituted;
17	91/2009-Customs, dated the 11 th September, 2009 [Vide number G.S.R 657(E), dated the 11 th September, 2009]	In the said notification, in the opening paragraph, in condition (iv), for the words and brackets "Waluj (Aurangabad)", the words, brackets and punctuations "Waluj (Aurangabad), Talegoan(District Pune), Dhannad Rau (District Indore), Kheda (Pithampur, District Dhar) and Patli (Gurgaon)", shall be substituted;
18	92/2009-Customs, dated the 11 th September, 2009 [Vide number G.S.R 658(E), dated the 11 th September, 2009]	In the said notification, in the opening paragraph, in condition (iv), for the words and brackets "Waluj (Aurangabad)", the words, brackets and punctuations "Waluj (Aurangabad), Talegoan(District Pune), Dhannad Rau (District Indore), Kheda (Pithampur, District Dhar) and Patli (Gurgaon)", shall be substituted;
19	93/2009-Customs, dated the 11 th September, 2009 [Vide number G.S.R 659(E), dated the 11 th September, 2009]	In the said notification, in the opening paragraph, in condition (iv), for the words and brackets "Waluj (Aurangabad)", the words, brackets and punctuations "Waluj (Aurangabad), Talegoan(District Pune), Dhannad Rau (District Indore), Kheda (Pithampur, District Dhar) and Patli (Gurgaon)", shall be substituted;
20	94/2009-Customs, dated the 11 th September, 2009 [Vide number G.S.R 660(E), dated the 11 th September, 2009]	In the said notification, in the opening paragraph, in condition (iv), for the words and brackets "Waluj (Aurangabad)", the words, brackets and punctuations "Waluj (Aurangabad), Talegoan(District Pune), Dhannad Rau (District Indore), Kheda (Pithampur, District Dhar) and Patli (Gurgaon)", shall be substituted;
21	95/2009-Customs, dated the 11 th September, 2009 [Vide number G.S.R 661(E),	In the said notification, in the opening paragraph, in condition (iv), for the words and brackets "Waluj (Aurangabad)", the words, brackets and punctuations "Waluj (Aurangabad), Talegoan(District Pune), Dhannad Rau

	dated the 11 th September, 2009]	(District Indore), Kheda (Pithampur, District Dhar) and Patli (Gurgaon)", shall be substituted;
22	96/2009-Customs, dated the 11 th September, 2009 [Vide number G.S.R 662(E), dated the 11 th September, 2009]	In the said notification, in the opening paragraph, in condition (vii), for the words and brackets "Waluj (Aurangabad)", the words, brackets and punctuations "Waluj (Aurangabad), Talegoan(District Pune), Dhannad Rau (District Indore), Kheda (Pithampur, District Dhar) and Patli (Gurgaon)", shall be substituted;
23	97/2009-Customs, dated the 11 th September, 2009 [Vide number G.S.R 663(E), dated the 11 th September, 2009]	In the said notification, in the opening paragraph, in condition (iv), for the words and brackets "Waluj (Aurangabad)", the words, brackets and punctuations "Waluj (Aurangabad), Talegoan(District Pune), Dhannad Rau (District Indore), Kheda (Pithampur, District Dhar) and Patli (Gurgaon)", shall be substituted;
24	98/2009-Customs, dated the 11 th September, 2009 [Vide number G.S.R 664(E), dated the 11 th September, 2009]	In the said notification, in the opening paragraph, in condition (vi) for the words and brackets "Waluj (Aurangabad)", the words, brackets and punctuations "Waluj (Aurangabad), Talegoan(District Pune), Dhannad Rau (District Indore), Kheda (Pithampur, District Dhar) and Patli (Gurgaon)", shall be substituted;
25	99/2009-Customs, dated the 11 th September, 2009 [Vide number G.S.R 665(E), dated the 11 th September, 2009]	In the said notification, in the opening paragraph, in condition (vii), for the words and brackets "Waluj (Aurangabad)", the words, brackets and punctuations "Waluj (Aurangabad), Talegoan(District Pune), Dhannad Rau (District Indore), Kheda (Pithampur, District Dhar) and Patli (Gurgaon)", shall be substituted;
26	100/2009-Customs, dated the 11 th September, 2009 [Vide number G.S.R 666(E), dated the 11 th September, 2009]	In the said notification, in the opening paragraph, in condition (9), for the words and brackets "Waluj (Aurangabad)", the words, brackets and punctuations "Waluj (Aurangabad), Talegoan(District Pune), Dhannad Rau (District Indore), Kheda (Pithampur, District Dhar) and Patli (Gurgaon)", shall be substituted;
27	101/2009-Customs, dated the 11 th September, 2009 [Vide number G.S.R 667(E), dated the 11 th September, 2009]	In the said notification, in the opening paragraph, in condition (12), for the words and brackets "Waluj (Aurangabad)", the words, brackets and punctuations "Waluj (Aurangabad), Talegoan(District Pune), Dhannad Rau (District Indore), Kheda (Pithampur, District Dhar) and Patli (Gurgaon)", shall be substituted;
28	102/2009-Customs, dated the 11 th September, 2009 [Vide number G.S.R 668(E), dated the 11 th September, 2009]	In the said notification, in the opening paragraph, in condition (11), for the words and brackets "Waluj (Aurangabad)", the words, brackets and punctuations "Waluj (Aurangabad), Talegoan(District Pune), Dhannad Rau (District Indore), Kheda (Pithampur, District Dhar) and Patli (Gurgaon)", shall be substituted;
29	103/2009-Customs, dated the 11 th September, 2009 [Vide number G.S.R 669(E), dated the 11 th September, 2009]	In the said notification, in the opening paragraph, in condition (8), for the words and brackets "Waluj (Aurangabad)", the words, brackets and punctuations "Waluj (Aurangabad), Talegoan(District Pune), Dhannad Rau (District Indore), Kheda (Pithampur, District Dhar) and Patli (Gurgaon)", shall be substituted;

30	104/2009-Customs, dated the 14 th September, 2009 [Vide number G.S.R 674(E), dated the 14 th September, 2009]	In the said notification, in the opening paragraph, in condition (v), for the words and brackets "Waluj (Aurangabad)", the words, brackets and punctuations "Waluj (Aurangabad), Talegoan(District Pune), Dhannad Rau (District Indore), Kheda (Pithampur, District Dhar) and Patli (Gurgaon)", shall be substituted;
31	112/2009-Customs, dated the 29 th September, 2009 [Vide number G.S.R 710(E), dated the 29 th September, 2009]	In the said notification, in the opening paragraph, in condition (vii), for the words and brackets "Waluj (Aurangabad)", the words, brackets and punctuations "Waluj (Aurangabad), Talegoan(District Pune), Dhannad Rau (District Indore), Kheda (Pithampur, District Dhar) and Patli (Gurgaon)", shall be substituted;

[F. No. 605/02/2009-DBK]

RAJESH KUMAR AGARWAL, Under Secy.

Note : (1) The Principal notification No.53/2003-Customs, dated the 1st April, 2003 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (1) vide number G.S.R 277(E), dated the 1st April, 2003 and was last amended by notification No.19/2009-Customs, dated the 24th February, 2009 was published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) vide number G.S.R 111 (E), dated 24th February, 2009.

(2) The Principal notification No.54/2003-Customs, dated the 1st April, 2003 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (1) vide number G.S.R 278(E), dated the 1st April, 2003 and was last amended by notification No.19/2009-Customs, dated the 24th February, 2009 was published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) vide number G.S.R 111 (E), dated 24th February, 2009.

(3) The Principal notification No.90/2004-Customs, dated the 10th September, 2004 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (1) vide number G.S.R 603(E), dated the 10th September, 2004 and was last amended by notification No.19/2009-Customs, dated the 24th February, 2009 was published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) vide number G.S.R 111 (E), dated 24th February, 2009.

(4) The Principal notification No.91/2004-Customs, dated the 10th September, 2004 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (1) vide number G.S.R 604 (E), dated the 10th September, 2004 and was last amended by notification No.19/2009-Customs, dated the 24th February, 2009 was published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) vide number G.S.R 111 (E), dated 24th February, 2009.

(5) The principal notification No. 92/2004-Customs, dated the 10th September, 2004 was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) Extraordinary vide

number GSR 605 (E), dated the 10th September, 2004 and was last amended by notification No.19/2009-Customs, dated the 24th February,2009 was published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) vide number G.S.R 111 (E), dated 24th February,2009

(6) The Principal notification No.93/2004-Customs, dated the 10th September, 2004 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (1) vide number G.S.R 606 (E), dated the 10th September, 2004 and was last amended by notification No.22/2009-Customs, dated the 2nd March, 2009 was published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) vide number G.S.R 141 (E), dated 2nd March, 2009.

(7) The Principal notification No.94/2004-Customs, dated the 10th September, 2004 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (1) vide number G.S.R 607 (E), dated the 10th September, 2004 and was last amended by notification No.22/2009-Customs, dated the 2nd March, 2009 was published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) vide number G.S.R 141 (E), dated 2nd March, 2009.

(8) The principal notification No. 97/2004-Customs, dated the 17th September, 2004 was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) Extraordinary vide number GSR 620 (E), dated the 17th September, 2004 and was last amended by notification No.19/2009-Customs, dated the 24th February,2009 was published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) vide number G.S.R 111 (E), dated 24th February,2009.

(9) The Principal notification No.32/2005-Customs, dated the 8th April, 2005 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (1) vide number G.S.R 222(E), dated the 8th April, 2005 and was last amended by notification No.19/2009-Customs, dated the 24th February,2009 was published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) vide number G.S.R 111 (E), dated 24th February,2009.

(10) The principal notification No. 41/2005-Customs, dated the 9th May, 2005 was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) Extraordinary vide number GSR 282 (E), dated the 9th May, 2005 and was last amended by notification No.19/2009-Customs, dated the 24th February,2009 was published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) vide number G.S.R 111 (E), dated 24th February,2009.

(11) The principal notification No. 89/2005-Customs, dated the 4th October, 2005 was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) Extraordinary vide number GSR 624 (E), dated the 4th October, 2005 and was last amended by notification No.19/2009-Customs, dated the 24th February,2009 was published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) vide number G.S.R 111 (E), dated 24th February,2009.

(12) The principal notification No. 40/2006-Customs, dated the 1st May,2006 was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) Extraordinary vide number GSR 260 (E), dated 1st May,2006 and was last amended by notification

No.19/2009-Customs, dated the 24th February,2009 was published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) vide number G.S.R 111 (E), dated 24th February,2009.

(13) The Principal notification No.73/2006-Customs, dated the 10th July, 2006 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (1) vide number G.S.R 408(E), dated the 10th July, 2006 and was last amended by notification No.19/2009-Customs, dated the 24th February,2009 was published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) vide number G.S.R 111 (E), dated 24th February,2009.

(14) The principal notification No. 90/2006-Customs, dated the 1st September, 2006 was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) Extraordinary vide number GSR 528 (E), dated the 1st September, 2006 and was last amended by notification No.19/2009-Customs, dated the 24th February,2009 was published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) vide number G.S.R 111 (E), dated 24th February,2009.

(15) The principal notification No. 91/2006-Customs, dated the 1st September, 2006 was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) Extraordinary vide number GSR 529 (E), dated the 1st September, 2006 and was last amended by notification No.19/2009-Customs, dated the 24th February,2009 was published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) vide number G.S.R 111 (E), dated 24th February,2009.

(16) The principal notification No. 14/2009-Customs, dated the 19th February, 2009 was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) Extraordinary vide number GSR 103 (E), dated the 19th February, 2009 and was last amended by notification No.19/2009-Customs, dated the 24th February,2009 was published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) vide number G.S.R 111 (E), dated 24th February,2009.

(17) The principal notification No. 91/2009-Customs, dated the 11th September, 2009 was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) Extraordinary vide number GSR 657 (E), dated the 11th September, 2009.

(18) The principal notification No. 92/2009-Customs, dated the 11th September, 2009 was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) Extraordinary vide number GSR 658 (E), dated the 11th September, 2009.

(19) The principal notification No. 93/2009-Customs, dated the 11th September, 2009 was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) Extraordinary vide number GSR 859 (E), dated the 11th September, 2009.

(20) The principal notification No. 94/2009-Customs, dated the 11th September, 2009 was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) Extraordinary vide number GSR 860 (E), dated the 11th September, 2009.

- (21) The principal notification No. 95/2009-Customs, dated the 11th September, 2009 was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) Extraordinary vide number GSR 661 (E), dated the 11th September, 2009.
- (22) The principal notification No. 96/2009-Customs, dated the 11th September, 2009 was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) Extraordinary vide number GSR 662 (E), dated the 11th September, 2009.
- (23) The principal notification No. 97/2009-Customs, dated the 11th September, 2009 was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) Extraordinary vide number GSR 663 (E), dated the 11th September, 2009.
- (24) The principal notification No. 98/2009-Customs, dated the 11th September, 2009 was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) Extraordinary vide number GSR 664 (E), dated the 11th September, 2009.
- (25) The principal notification No. 99/2009-Customs, dated the 11th September, 2009 was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) Extraordinary vide number GSR 665 (E), dated the 11th September, 2009.
- (26) The principal notification No. 100/2009-Customs, dated the 11th September, 2009 was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) Extraordinary vide number GSR 666 (E), dated the 11th September, 2009.
- (27) The principal notification No. 101/2009-Customs, dated the 11th September, 2009 was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) Extraordinary vide number GSR 667 (E), dated the 11th September, 2009.
- (28) The principal notification No. 102/2009-Customs, dated the 11th September, 2009 was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) Extraordinary vide number GSR 668 (E), dated the 11th September, 2009.
- (29) The principal notification No. 103/2009-Customs, dated the 11th September, 2009 was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) Extraordinary vide number GSR 669 (E), dated the 11th September, 2009.
- (30) The principal notification No. 104/2009-Customs, dated the 14th September, 2009 was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) Extraordinary vide number GSR 674 (E), dated the 14th September, 2009.
- (31) The principal notification No. 112/2009-Customs, dated the 29th September, 2009 was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) Extraordinary vide number GSR 710 (E), dated the 29th September, 2009.